

नामांक

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

No. of Questions – 38

No. of Printed Pages – 8

V-103

व्यावसायिक शिक्षा (कक्षा – X) परीक्षा, 2017

लेवल – द्वितीय

विषय : स्वास्थ्य देखभाल

समय : 2 घण्टे

पूर्णांक : 30

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

- (1) परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
- (2) सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं।
- (3) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में निर्धारित शब्द सीमा में लिखें।
- (4) प्रश्न संख्या 1 से 10 तक (बहुविकल्पीय प्रश्नों) के उत्तर तालिका बनाकर उत्तरपुस्तिका में लिखें।
- (5) प्रश्न संख्या 11 से 30 तक के उत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर-पुस्तिका में तालिका बनाकर लिखें।
- (6) प्रश्न संख्या 31 से 36 तक के उत्तर 4 से 6 पंक्ति में लिखें।
- (7) प्रश्न संख्या 37 से 38 तक के उत्तर दो पृष्ठ तक लिखें।

सही विकल्प चुने :

$$(10 \times \frac{1}{2} = 5)$$

9. रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है ? 1/2

10. गुर्दा प्रतिदिन कितना मूत्र बनाता है ? 1/2

भाग – ‘ब’

रिक्त स्थानों की पूर्ति करे : $(20 \times \frac{1}{2} = 10)$

11. संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्ति का इलाज _____ अस्पताल में किया जाता है ।

12. जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की चिकित्सा देखभाल _____ विभाग में की जाती है।

13. सफाई तथा लॉन्ड्री विभाग _____ की देखभाल करता है।

14. हीमोग्लोबिन की जांच _____ प्रयोगशाला में की जाती है।

15. आर्थोपेडिक अस्पताल में _____ से सम्बन्धित समस्याओं का उपचार किया जाता है । $\frac{1}{2}$
16. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिस्तर क्षमता _____ होती है । $\frac{1}{2}$
17. रक्तचाप का उच्च होना _____ कहलाता है । $\frac{1}{2}$
18. शरीर का सामान्य तापमान _____ होता है । $\frac{1}{2}$
19. ठोस भोजन लेने में असमर्थ रोगी को _____ आहार दिया जाता है । $\frac{1}{2}$
20. भोजन शरीर और मस्तिष्क को _____ प्रदान करता है । $\frac{1}{2}$
21. अस्पताल में भर्ती होने के बाद होने वाला संक्रमण _____ कहलाता है । $\frac{1}{2}$
22. कुत्ते के काटने से _____ रोग होता है । $\frac{1}{2}$
23. संक्रमण की रोकथाम के लिए बैक्टीरिया वृद्धि को रोकना _____ कहलाता है । $\frac{1}{2}$
24. चिकित्सा सहायता मिलने से पहले दी जाने वाली सहायता _____ चिकित्सा कहलाती है । $\frac{1}{2}$

25. तीसरी डिग्री तक जलने पर त्वचा की _____ परतों को नुकसान होता है । $\frac{1}{2}$
26. आयरन की कमी से _____ रोग हो जाता है । $\frac{1}{2}$
27. विटामिन सी की कमी से _____ रोग हो जाता है । $\frac{1}{2}$
28. एंबुलेंस में _____ कर्मचारी होते हैं जो उचित चिकित्सा सहायता देते हैं । $\frac{1}{2}$
29. रोगी, आगंतुकों, डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए अस्पताल में संपर्क का पहला बिंदु _____ होता है । $\frac{1}{2}$
30. अस्पताल का _____ विभाग वह हिस्सा होता है, जिसमें सड़क दुर्घटना या गंभीर जटिलताओं से पीड़ित व्यक्ति का तुरंत इलाज किया जाता है । $\frac{1}{2}$

भाग – ‘स’

चार से छः पक्षियों में उत्तर दीजिए : $(6 \times 1\frac{1}{2} = 9)$

31. जनरल ड्यूटी सहायक की विशेषताएँ लिखिए । $1\frac{1}{2}$
32. फोलर स्थिति क्या होती है ? इसके उपयोग लिखिए । $\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 1\frac{1}{2}$
33. अच्छे पोषित व्यक्ति की विशेषताएँ लिखिए । $1\frac{1}{2}$

34. बुखार के प्रकार बताइए तथा बुखार के रोगी का प्राथमिक उपचार लिखिए । $\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 1\frac{1}{2}$
35. दमा रोग से आप क्या समझते हो ? दमा रोगी का प्राथमिक उपचार लिखिए । $\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 1\frac{1}{2}$
36. तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान रोगी तथा रिश्तेदारों को जवाब देते समय जनरल ड्यूटी सहायक को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? $1\frac{1}{2}$

भाग – ‘द’

दो पृष्ठों में उत्तर दीजिए । $(2 \times 3 = 6)$

37. माइक्रोब कैसे संक्रमित करते हैं ? वर्णन कीजिए । 3

अथवा

कीटाणुशोधन किसे कहते हैं ? अस्पताल में उपयोग में ली जाने वाली किन्हीं पाँच कीटाणुशोधन विधियों का वर्णन कीजिए । $\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 3$

38. मूत्र प्रणाली का चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए । $1 + 2 = 3$

अथवा

पोषण महत्वपूर्ण क्यों है ? मैक्रो पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए । $1 + 2 = 3$

DO NOT WRITE ANYTHING HERE